



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1945 (श0)
(सं0 पटना 94) पटना, सोमवार, 5 फरवरी 2024

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

कार्यालय आदेश
5 जनवरी 2024

सं० अ०सं०क०-01-01/2024/09—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-22719, दिनांक-14.12.2023 द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में दिनांक-22.05.2023 को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु योग्य अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक को निम्नवत् शर्तों के साथ अपुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे०-1900 पुनरीक्षित वेतनमान 19900-63200/- लेवल-02 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत समय-समय पर अन्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर योगदान की तिथि से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना में नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	आवेदन सं०/ खेल विधा	अभ्यर्थी का नाम/जन्म तिथि	पिता का नाम	आरक्षण कोटि	शैक्षणिक योग्यता	गृह जिला	फोटो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RGB/00000179 /Rugby	सुल्ताना बानो/ 27.02.2003	मो० मंजुर आलम	अ०पि०व०	इण्टरमीडिएट	भोजपुर		—

2. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के नियम-4 के आलोक में सीधी भर्ती हेतु राज्य सरकार की अनुमति से अनुशंसित खिलाड़ी यदि शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करते/करती हों तो वैसे खिलाड़ियों को नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष के अंदर उस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता को प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्त किया गया व्यक्ति संबंधित सेवा में पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि वह विहित शैक्षणिक अर्हता धारण नहीं कर लेता/लेती है।

3. चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जायेगी। चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनिवार्य रूप से करा ली जायेगी।

4. प्रमाण पत्रों के सत्यापन अथवा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब संबंधित नव-नियुक्त कर्मी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं इनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई उनके द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर की जायेगी। किसी तरह की विसंगति की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के पत्रांक-1963, दिनांक-15.09.2023 द्वारा अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापित किया गया है। यदि भविष्य में खेल प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि पाई जाती है अथवा अभ्यर्थियों द्वारा दी गई कोई सूचना गलत/मिथ्या पाई जाती है तो संबंधित अनुशसित अभ्यर्थी के खिलाफ उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी। शेष प्रमाण पत्रों यथा-शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को संबंधित बोर्ड/संस्था (जारीकर्ता) से सत्यापन निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से करा ली जायेगी।

6. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के नियम-10 (ii) के आलोक में खेल कोटा के अधीन नियुक्ति इसी शर्त पर की जायेगी कि नियुक्त सभी उम्मीदवार नियुक्ति की तिथि से 05 वर्षों तक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होंगे एवं इस प्रयोजनार्थ एक बंधपत्र (Bond) अनिवार्य रूप से देंगे। बंधपत्र (Bond) के शर्तों को पूरा करने में विफल रहने वाले खिलाड़ियों की सेवा संपुष्टि नहीं की जायेगी।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01.04.2003 एवं पत्र संख्या-1859 दिनांक-08.07.2006 में निहित प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन कार्यालय द्वारा नियुक्त कर्मी के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

8. संबंधित कर्मी द्वारा दिये गये योगदान की तिथि से वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्ते देय होंगे।

9. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में चयनित खिलाड़ियों का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। संबंधित कर्मी का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा।

10. संबंधित कर्मी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल में) अनिवार्य रूप से कार्यालय में समर्पित करेंगे।

11. दिनांक-01 सितम्बर 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है, अतएव इनके मामले में नई पेंशन स्कीम लागू होगी।

12. इस पद पर होने वाले व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के बजट मुख्य शीर्ष-2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष-090-सचिवालय उपशीर्ष-0011-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विपत्र कोड-30-2251000900011 वेतनादि मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

विश्वासभाजन,
मो० सोहैल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 94-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>